



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, अप्रैल 7—अप्रैल 13, 2013, शनिवार/चैत्र 17—चैत्र 23, 1935  
No. 15] NEW DELHI, APRIL 7—APRIL 13, 2013, SATURDAY/CHAITRA 17—CHAITRA 23, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

### नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2013

**सा.का.नि. 85.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1987 को, जहां तक इनका संबंध गेस्टेनर आपरेटर, अभिलेख छंटाईकार, दफ्तरी, जमादार, चपरासी, फराश, सफाईवाला, प्रदर्शनी सहायक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में बहु-कार्य कर्मचारी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, (बहु-कार्य कर्मचारी) समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2013 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहुकार्य कर्मचारी	43* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच, (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

**टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान

(6)

और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

**टिप्पण 2 :**—रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	--	-------------------------------

(7)

(8)

(9)

मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पास ।

लागू नहीं होता

दो वर्ष

**टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाएगा

(10)

(11)

सीधी भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे :

लागू नहीं होता ।

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. उप-सचिव या निदेशक (प्रशासन) | —अध्यक्ष |
| 2. अवर सचिव (प्रशासन)          | —सदस्य   |
| 3. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन)    | —सदस्य   |

[ फा. सं. 2/1/2013-प्रशा. 1 ]

सुरेश कुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY**

New Delhi, the 8th April, 2013

**G.S.R. 85.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Non- Conventional Energy Sources (Group ‘D’ posts) Recruitment Rules, 1987, in so far as they relate to the post of Gestetner Operator, Record Sorter, Daftry, Jamadar, Peon, Farash, Safaiwala, Exhibition Attendant, except as respects things done or omitted to be done beofore such superession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in the Ministry of New and Renewable Energy, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of New and Renewable Energy (Multi-Tasking Staff) Group ‘C’ Post, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**— These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of Posts, Classification pay band and grade pay or pay scale.**—The number of posts, its classification pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**5. Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi-Tasking Staff.	43* (2013) *Subject to variation depend on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 : (Rs. 5200—20200) plus Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of Forty years in the case of general candidates and upto Forty

(6)

Five years in the case of candidates belonging to Scheduled Caste or the Scheduled Tribe in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)

**Note 1 :—** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

**Note 2 :—** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date of determination of the age-limit shall be the last date on which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Matriculation from recognised Board or equivalent or Industrial Training Institute Pass.	Not applicable.	Two years
<b>Note :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.		

<b>Method of recruitment :</b> Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or absorption/ deputation is to be made
(10)	(11)
Direct recruitment	Not applicable
If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<b>Departmental Promotion Committee, for confirmation, consisting of :—</b>	Not applicable.
1. Dy. Secretary or Director (Administration) —Chairman	
2. Under Secretary (Administration) —Member	
3. Section Officer (Administration) —Member	
	[F. No. 2/1/2013-Admn.-1] SURESH KUMAR, Under Secy.

### कृषि मंत्रालय

( पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग )

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2013

**सा.का.नि. 86.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत (समूह 'ग') भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची में,—
  - प्रयोगशाला परिचर पद के सामने, स्तंभ (6) में, “(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)” कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर “(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे।
  - पशु परिचर पद के सामने, स्तंभ (6) में, “(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)” कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर “(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे।
  - शव परीक्षण परिचर पद के सामने, स्तंभ (6) में, “(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)” कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर “(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 44-5/2005-ए. III]

योगेन्द्र कुमार, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 157, तारीख 9 नवम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 148, तारीख 28 अप्रैल, 2011 द्वारा संशोधित किए गए ।

## MINISTRY OF AGRICULTURE

### (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 4th April, 2013

**G.S.R. 86.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Institute of Animal Health, Baghpat (Group ‘C’) posts Recruitment Rules, 2009, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Institute of Animal Health, Baghpat, (Group ‘C’) Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Institute of Animal Health, Baghpat (Group ‘C’) posts Recruitment Rules, 2009, in the Schedule,—

- (i) against the post of Laboratory Attendant, in Column (6), for the brackets, words and figures “(Relaxable for Government servants up to 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)”, the brackets, words and figures “(Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).” shall be substituted;
- (ii) against the post of Animal Attendant, in Column (6), for the brackets, words and figures “(Relaxable for Government servants up to 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)”, the brackets, words and figures “(Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).” shall be substituted;
- (iii) against the post of Post Mortem Attendant, in Column (6), for the brackets, words and figures “(Relaxable for Government servants up to 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)”, the brackets, words and figures “(Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).” shall be substitute.

[F.No. 44-5/2005-A. III]

YOGINDER KUMAR, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number No. G.S.R. 157, dated the 9th November, 2009 and subsequently amended vide number G.S.R. 148, dated the 28th April, 2011.